

एकल व्यक्तियों की परिसंपत्तियों और देयताओं का विवरण
STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES OF INDIVIDUALS
 (केवल रु.10,000 लाख के नीचे की ऋण सीमा के लिए)
 (For credit limits below Rs. 10 lakhs only)

सेवा में/To
 शाखा प्रबंधक/The Branch Manager
 विजया बैंक/VIJAYA BANK

आपके बैंक में रु. की ऋण सुविधाएँ पाने के लिए मैं अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के विवरण नीचे प्रस्तुत करता हूँ।
 I submit below the particulars of my assets and liabilities for the purpose of obtaining credit facility of Rs. in your bank.

क. अचल संपत्तियाँ / A. FIXED ASSETS

क्रम सं. / Sl. No.	विवरण / Particulars	खरीदने की तारीख / Year of Purchase	सर्वे सं. आवास सं. / Survey No./ House No.	स्थान व सीमाएँ / Location & Boundaries	क्षेत्र-एकड़ सेंट्स / सक्वैयर फीट / Area Acre/Cents/ Square feet	कैसे अर्जित किया क्या आपके स्वामित्व में / पट्टे पर है / How acquired whether in self possession/leased	वर्तमान मूल्य / Present Value	यदि उधार लिया हो तो रकम / Amount if any borrowed
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	जमीन/LAND कृषि, फार्म, एस्टेट, भूमि (पट्टे पर या स्वतंत्र है दर्शाएँ) Agriculture, Farm, Estates, Site (Indicate lease hold or free hold)							
II	भवन/BUILDING आवास / फ्लैट / कारखाना / शेड / कांप्लेक्स (पट्टे पर या स्वतंत्र है दर्शाएँ) House/Flat/Factory/Shed/Complex (Indicate Residential or Commercial)							
	कुल/TOTAL							

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि ऊपर दर्शायी गयी परिसंपत्तियाँ पूर्णतः मेरे स्वामित्व में हैं व और उनके "ए" के कॉलम सं 9 में आर "बी" के कॉलम सं 8 में दर्शाया गया हद तक को छोड़कर ये परिसंपत्तियाँ स्वत्वाधिकार अंतरण के अधीन या भाग्यस्त नहीं हैं दर्शाया गया है।

I hereby declare and confirm that the properties and assets listed above are fully owned by me and these assets are not alienated or encumbered except to the extent furnished in C column No. 9 of A and 8 of B.

मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि जबतक, एक उधारकर्ता के रूप में बैंक के प्रति सभी बाध्यताएँ चुकायी नहीं जाएगी तबतक बैंक को लिखित रूप में पूर्व सूचना दिए बिना उपर्युक्त परिसंपत्ति संपदा को भाग्यस्त नहीं करूंगा।

I hereby undertake, not to encumber/alienate the said properties/assets without prior intimation to the Bank in writing till all my obligations to the Bank as a borrower/guarantor are fully discharged.

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

पार्टी के हस्ताक्षर/Signature of the Party

ख. चल संपत्तियाँ / B. MOVABLE ASSETS

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	खरीदने की तारीख Year of Purchase	कैसे अर्जित किया How acquired	कितनी रकम अदा की Amount paid Rs.	वर्तमान मूल्य Present Value	देय दिनांक Due Date	यदि उधार लिया हो तो रकम Amount if any borrowed
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मशीने/Machinery						
2	फर्नीचर व फिक्चर्स / Furniture & Fixtures						
3	सरकारी, प्रतिभूतियाँ /Govt. Securities एनएससी, एनएसएस, आइवीपी, एलआइसी, आदि /NSC, NSS, IVP, LIC etc.						
4	सीमित कंपनियों के शेयर / डिबेंचर /Shares/Debentures of Ltd. Companies						
5	बैंकों / संस्थाओं / डाक घरों में रखी हुई जमा राशियाँ /Deposits with Banks/Institution/Post Office						
6	जेवरात - वजन, दर व मूल्य दर्शायें /Jewels-Indicate Weight, Rate & Value						
7	फुटकर अग्रिम/Sundry Advance						

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

पार्टी के हस्ताक्षर/Signature of the Party

शाखा प्रबंधक द्वारा प्रमाण पत्र / CERTIFICATE OF THE BRANCH MANAGER

मैंशाखा प्रबंधकशाखा, एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने ऊपर दी गई सूचना को संबंधित रिकार्ड के साथ सत्यापित कर लिया है तथा ऊपर किया गया मूल्यांकन मेरी पूरी जानकारी व विश्वास तक सही व सत्य है। कर व अन्य भुगतान रसीदों की प्रतियाँ प्राप्त करके शाखा के रिकार्ड के लिए रखा गया है।

I..... the Branch Manager of.....Branch hereby certify that I have verified the information furnished above with relative records and the assessment made above is true and fair to the best of my knowledge and belief, copies of tax and other payment receipts have been obtained and kept as branch records.

शाखा प्रबंधक/Branch Manager